

## उत्तराखण्ड शासन

## न्याय अनुभाग-1

संख्या-485/XXXVI-A-1/2023-157/2016

देहरादून, दिनांक: 01 अक्टूबर, 2023

## कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-23/XXXVI-A-1/2023-157/2016 दिनांक 19.01.2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के अंतर्गत 07 जनपदों देहरादून, ऊधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल में स्थापित स्थायी लोक अदालतों में विभिन्न संवर्ग में सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता दिनांक 29.02.2024 तक के लिए बढ़ायी गयी है।

2- एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के अंतर्गत उक्त 07 जनपदों में स्थापित स्थायी लोक अदालतों के अधिष्ठान में सृजित विभिन्न श्रेणी के निम्नलिखित विवरणानुसार कुल 21 पदों को वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-118, दिनांक 31.08.2006 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों में निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण किये जाने पर उक्त पदों को स्थायी किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप से सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1.	पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष (स्थायी लोक अदालत, देहरादून व ऊधम सिंह नगर)	02	1,44,840-1,94,660 लेवल-J5	24-एक(5)XXXVI(1)/2005-23-एक(5)/05 दिनांक 08.11.2005	23/XXXVI-A-1/2023-157/2016 न्याय अनुभाग-1, दिनांक 19.01.2023	-
	पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष (अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल व टिहरी गढ़वाल)	05	1,44,840-1,94,660 लेवल-J5	32/XXXVI(1)/2016-23 एक(5)/2005 दिनांक 03.03.2017	-तदैव-	-
2.	अनुसेवक	02	18,000-56,900 लेवल-1	24-एक(5)XXXVII(1)/2005-23-एक(5)/05 दिनांक 08.11.2005	-तदैव-	-
		10	आउटसोर्सिंग/बाह्य स्रोत के माध्यम से	32/XXXVII(1)/2016-23 एक(5)/2005 दिनांक 03.03.2017	-तदैव-	-
		02	आउटसोर्सिंग/बाह्य	110/XXXVI(1)/2018-23-एक(5)/2005 दिनांक 10.	-तदैव-	-

J23

			स्त्रोत के माध्यम से	04.2018		
	कुल पदों की संख्या	21	-	-	-	-

3- उक्त पदों के सम्बन्ध में समय-समय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों की शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

**Signed by Narendra Dutt**

**Date: 17-10-2023 13:49:49**

(नरेन्द्र दत्त)  
प्रमुख सचिव

**संख्या:- 4850 /XXXVI-A-1/2023-157/2016 तददिनांक।**

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 / वित्त अनुभाग-5 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

**Signed by** <sup>आज्ञा से</sup> **Sudhir Kumar Singh**  
**Date: 01-11-2023 11:38:48**

(सुधीर कुमार सिंह)  
अपर सचिव